

শিশুদেরে জন্য বাইবেলে  
উপহার

যীশু সমুদর কে  
তুফান কে শান্ত  
করলন



লিখিছেন: Edward Hughes

দ্বারা চিত্রিত: Janie Forest  
Alastair Paterson

অভিযোজিত: Ruth Klassen


অনুবাদিত: Sonu Rahi

দ্বারা উত্পাদিত: Bible for Children  
[www.M1914.org](http://www.M1914.org)

©2025 Bible for Children, Inc.

লাইসেন্স: আপনার কাছে এই গল্পটি কপি বা প্রিন্ট করার অধিকার আছে,  
যতক্ষণ না আপনি এটি করবেন না।






यीशु आउर उनखर  
चेला एगो नाव में  
हलन, ओही घड़ी  
एगो बड़का तूफान  
उठलई। इ एगो रोस  
के जौरे गलील के  
सागर के उफान पे ले  
अईलक। ई तरह के  
आंधी जहजवन के  
तोड़े आउर डूबावे के  
कारण बन सकऽ हे।




आंधी चेलवन के डेरा देलकई। पानी के लहर नाव में घूंसे  
लगल। बाकि यीशु नाव में आंधी घड़ी, एगो तकिया लगा के  
सुत्तल हलन। चेलवन यीशु के जगैलन, आउर रो रो के कहे




लगलन, "प्रभु  
हमनी सभे  
मरल जा  
रहली हे।"



यीशु अपन चेलवन से कहलन, "हे अल्प विश्वासी तोहनी कहे डेरा रहलऽ हे?" त यीशु हवा के बहे से डांटलन... आउर ... यीशु उ भअंकर लहरवन के शांत होबे लागी कहलन।



अब हावा शांत हो गेल... समुंदर सांतपुर्न होके रुक गेल।  
चेलवन बड़ी चौक गेलन आउर कहे लगलन "इ कउन हथन  
जिनखर आज्ञा के समुंदरबो आउर हवा मानऽ हे।"




कुछ समय के बाध, यीशु के जीवन में एगो आउर  
व्यस्त दिन आयल। लगभग 5000 से जादे लोगवन


एगो सुनसान जगह पर उनखर अनुसरण  
कैलन। खाली एगो छोटा लड़का के दुपहर  
के खाना के उपयोग


कर के परमेश्वर के शक्ति  
से, यीशु सभे भीर के  
खिलैलन। अब हूँआ

साँझ हो गेल,  
यीशु सभे के  
दूर भेज  
देलन।




चेलवनो के हूँआ से जाय पड़ल। यीशु ओंखनी के नाव में  
गलील के सागर के दूसरा छोर तक पहिले जाय देलन।






जब उ सभे के उ दूर  
भेज देलन त पहाड़  
पर उपरे प्रार्थना करे  
लागी चल गेलन।  
साँझ होल त यीशु  
हँआ अकेले हलन।





झील में चेलवन एगो  
अंधड़ से घेरा गेलन। अंधड़  
ओंखनी के रोक लेलकई,  
हिया तक कि उ घंटो नाव  
खेबीत रहलन। चेलवन के  
ई पता न हल,  
बाकि उ बड़ी  
अचम्भा  
करऽ रहलन  
हल!






बिहने तीन आउर छौ  
बजे के बीच, समुंदर के  
बीच में लहरबन पर  
चेलवन कुछ डेराय वाला  
चीज देखलन। "इ एगो  
भुत हे!" उ चिल्लाय  
लगलन। बाकि उ यीशु,  
उनखर प्रभु आउर। बाकि  
उ यीशु, उनखर प्रभु  
आउर गुरु, पानी पर  
चलते उनखा दने आ  
रहलन हल।



यीशु उनखा से कहलन,  
"न घबरा! इ हम्मे ही,  
मत डरऽ" पतरस कहलन,  
"प्रभु ई जदी अपने हऽ, त  
हमरा पानी पर चलके  
अपने भीर आबे ला  
कहऽ।" यीशु कहलन  
बिना डरले आबऽ पतरस  
नाव से बहारसी पानी  
पर गोड़ रखलन आउर  
यीशु दने चल देलन।






बाकि जखनी उ  
हावा के देखलन,  
पतरस डेरा गेलन,  
आउर डुब्बे लगलन।  
उ चिल्लायलन, उ  
कहलन, हे प्रभु,  
"हमरा बचा लऽ!"



तुरंते, यीशु अपन हाँथ बढा के पकड़लन। उ  
पूछलन, "हे अल्प विश्वासी, तूं काहे संदेह  
कैलऽ?" जखनी पतरस आउर प्रभु यीशु नाव में  
चहड़ गेलन त, अंधी थम गेल।



फिन जौन लोग नाव में  
हलन, ऐलन आउर इ  
कहलन कि अपने "सच्चो में  
परमेश्वर के बेटा हऽ"  
उनखर आराधना कैलन।



यीशु समुंदर के तूफान के शांत करलन

ঐশ্বররে বাক্য, বাইবেলে থাকে একটি গল্প,

পাওয়া যায়

मत्ती 8, मत्ती 14, मरकुस 4, लूका 8

“তোমার শব্দরে প্রবশেদ্বার আলো দয়ে।”

গীতসংহিতা 119:130






দয় এন্ড



48



60



এই বাইবেলেরে গল্প আমাদেরকে আমাদের বস্মিয়কর ঈশ্বর সম্পর্কে বলে  
যনি আমাদের তরৈকিরছেন এবং যনি চান আপনিতাঁকে জানুন।

ঈশ্বর জাননে আমরা খারাপ কাজ করছোঁ, যাকে তিনি পাপ বলেছেন। পাপরে  
শাস্তি মৃত্যু, কনিতু ঈশ্বর আপনাকে এত ভালোবাসনে তিনি তাঁর একমাত্র  
পুত্র, যীশুকে ক্রুশে মরতে এবং আপনার পাপরে জন্ম শাস্তি পতে  
পাঠয়িছেন। তারপর যীশু আবার জীবতি হয়। স্বর্গে চলে গলেনে! আপনি যদি  
যীশুতে বশ্বিবাস করনে এবং তাঁর কাছে আপনার পাপরে ক্ষমা চান, তিনি তা  
করবেন! তিনি আসবেন এবং এখন আপনার মধ্যে বাস করবেন, এবং আপনি  
চরিকাল তাঁর সাথে বসবাস করবেন।

যদি আপনি বশ্বিবাস করনে য়ে এটি সত্য, তাহলে ঈশ্বরকে বলুন:  
প্রয়ি যীশু, আমি বশ্বিবাস করয়ি। আপনি ঈশ্বর, এবং আমার পাপরে জন্ম  
মরতে একজন মানুষ হয়েছিলেন, এবং এখন আপনি আবার জীবতি হয়েছেন।  
দয়া করে আমার জীবনে আসুন এবং আমার পাপ ক্ষমা করুন, যাতে আমি  
এখন নতুন জীবন পতে পারি, এবং একদিন চরিকাল আপনার সাথে থাকতে  
পারি। আমাকে আপনার আনুগত্য করতে এবং আপনার সন্তান হিসাবে  
আপনার জন্ম বাঁচতে সাহায্য করুন। আমীন।

বাইবেলে পড়ুন এবং প্রতদিনি ঈশ্বরের সাথে কথা বলুন! জন 3:16

